

वर्ष 2016 के मुकदमों में मा0 न्यायालय द्वारा धारा 82/83 सीआरपीसी कुर्की जारी के बाद फरार अभियुक्त की बिहार से

गिरफ्तारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन व पुराने मुकदमों के निस्तारण में चलाए जाने अभियान के तहत एवं सोनम कुमार पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं श्री सुमित शुक्ला क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल निर्देशन मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के आदेश पर उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह मय टीम के दिनांक 30.01.2021 को थाना कैण्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/16 धारा 419/420/467/468/471 भादवि के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। जो लगभग 4 वर्षों से फरार चल रहा था एवं मा0 न्यायालय द्वारा धारा 83 सीआरपीसी (कुर्की) जारी किया गया था। जिसके क्रम में थाना कैण्ट गोरखपुर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.01.2021 को समय 17.00 बजे स्थान अभियुक्त के घर ग्राम मटिहानी नैन थाना मीरगंज जिला गोपालगंज प्रान्त बिहार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 30.01.2021 को समय करीब 17.00 बजे स्थान अभियुक्त के घर ग्राम मटिहानी नैन थाना मीरगंज जिला गोपालगंज प्रान्त बिहार

गिरफ्तार अभियुक्त -

दीपक कुमार उर्फ नीरज कुमार पुत्र पवन प्रसाद निवासी ग्राम मटिहानी थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज बिहार

घटना क्रम- अभियुक्त नीरज , इब्राहिम , रणजीत एवं राधा गौड़ द्वारा आजद चौक में ए0के0एस0 काम्पलेक्स में अलक्राफ्ट ट्रेवल्स आफिस खोल कर विदेश में नौकरी दिलाने व पासपोर्ट लेकर वीजा बनवाने का काम फर्जी वीजा देने व बेरोजगारो का पैसा हड़प लेने के संबंध में वादी मुकदमा गोलू साहनी पुत्र विद्याधर साहनी निवासी ग्राम रियांव थाना गगहा गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 288/16 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर पर पंजीकृत कराया गया था। जिसमें से वर्ष 2016 उक्त अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को जेल भेज दिया जा चुका था। मुख्य अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ दीपक कुमार पुत्र पवन प्रसाद निवासी ग्राम मटिहानी थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज बिहार जो घटना कारित करने के बाद से फरार हो गया था। जिसके विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया था। जिसके क्रम में अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ दीपक कुमार को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.01.2021 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना कैण्ट गोरखपुर
2. का0 साहब लाल थाना कैण्ट गोरखपुर
3. का0 अजीत कुमार वर्मा थाना कैण्ट गोरखपुर